

## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

### **:- REVISED NOTIFICATION :-**

It is hereby notified that examination programme for B.Sc. (NEP) 14 (1) I Year (Regular/Pvt)  
Exam – May-2026 is scheduled as below: -

परीक्षा कार्यक्रम बी.एस.सी. (NEP) 14 (1) प्रथम वर्ष ( नियमित/स्वाध्यायी) परीक्षा  
परीक्षा - मई -2026

#### विशेष नोट:-

1. यदि कोई विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के अलावा दूसरे पाठ्यक्रम से जेनेरिक इलेक्टिव (सामान्य वैकल्पिक) विषय का चुनाव करता है तो उसे संबंधित पाठ्यक्रम के टाइम टेबल के अनुसार ही परीक्षा में शामिल होना होगा इसके लिये पृथक से परीक्षा का आयोजन नहीं किया जावेगा।
2. संलग्न टाइम टेबल में यदि किसी विद्यार्थी का विषय नहीं दर्शाया गया है या किसी भी अन्य समस्या के लिये अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करे अथवा विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को वेबसाईट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नम्बर पर संपर्क करें। हेल्पलाइन पर सिर्फ कार्यालयीन समय (प्रातः 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक) में ही संपर्क किया जावेगा।
3. महाविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम को सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें।
4. केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/परीक्षार्थी ओपन इलेक्टिव एवं वोकेशनल विषय के प्रश्न पत्रों के लिये निर्धारित समय का विशेष रूप से ध्यान रखें।

Date	Day	Time	Name of Question Paper
12/05/2026	Tuesday	11AM to 02 PM	Major - 1
			1. Chemistry of Biomolecules: Biochemistry
			2. Cell and Molecular Biology: Biotechnology
			3. Fundamentals of Botany: Botany
			4. Fundamentals of Inorganic Chemistry: Chemistry
			5. Computer System Architecture: Computer Science
			6. The Basics of Forensic Science & Criminalities: Forensic Science
			7. Physical Geology: Geology
			8. Origin, Evolution and Types of Horticulture in India: Horticulture
			9. Industrial Aspects of Organic and Inorganic Chemistry: Industrial Chemistry
			10. Tools and Techniques in Industrial Microbiology: Industrial Microbiology
			11. Information Technology and ICT Tools: Information Technology
			12. General Microbiology (Major-I): Microbiology
			13. Inorganic Chemistry: Pharmaceutical Chemistry
			14. Mathematical Physics and Special Theory of Relativity: Physics
			15. Fundamentals of Seed Science: Seed Technology
			16. Animal Diversity I: Lower Non-Chordata: Zoology
			17. Basics of Military Science: Military Science
			18. Basic Statistics (Paper-I): Statistics
19. Algebra and Trigonometry: Mathematics			
Date	Day	Time	Major - 2
15/05/2026	Friday	11AM to 02 PM	1. Cell Biology: Biochemistry
			2. Biochemistry: Biotechnology
			3. Microbes and Lower Plant Diversity: Botany
			4. Analytical Chemistry: Chemistry
			5. Programming Methodologies & Data Structures (Using C/C++): Computer Science
			6. Crime Scene Management: Forensic Science
			7. Crystal and Mineral Science: Geology
			8. Organic Chemistry: Pharmaceutical Chemistry

15/05/2026	Friday	11AM to 02 PM	<b>Major - 2</b>
			9. Horticulture Crops and Business Management: Horticulture
			10. Unit Operations in Chemical Industries: Industrial Chemistry
			11. Fundamentals of Industrial Microbiology: Industrial Microbiology
			12. Problem Solving and Python Programming: Information Technology
			13. Microbial Tools and Techniques: Microbiology
			14. Mechanics and General Properties of Matter: Physics
			15. Fundamentals of Seed Technology : Seed Technology
			16. Animal Diversity II – Higher Non Chordates :Zoology
			17. Conceptual Study of War: Military Science
18. Analytical Statistics (Paper-II): Statistics			
19. Calculus and Vector Analysis: Mathematics			
<b>Date</b>	<b>Day</b>	<b>Time</b>	<b>Major - 3</b>
19/05/2026	Tuesday	11AM to 02 PM	1. Biochemical Techniques: Biochemistry
			2. Microbiology and Immunology: Biotechnology
			3. Applied Botany: Botany
			4. Basic Physical Organic and Nuclear Chemistry: Chemistry
			5. Operating System & Office Tools: Computer Science
			6. Questioned Documents & Computer Forensic: Forensic Science
			7. Earth Resources of India: Geology
			8. Gardening Ornamental Plants: Horticulture
			9. Small Scale Industries An Introduction: Industrial Chemistry
			10. Dairy Technology: Industrial Microbiology
11. Web Application Development: Information Technology			
12. Microbial Diversity and Growth: Microbiology			
13. Physical Chemistry: Pharmaceutical Chemistry			
14. Thermal Physics (Paper III): Physics			
15. Seed Production and Practices : Seed Technology			
16. Cell Biology and Genetics: Zoology			
17. Military Science in Ancient India: Military Science			
18. Probability Distributions (Paper III): Statistics			
19. Differential Equations and Geometry: Mathematics			
<b>Date</b>	<b>Day</b>	<b>Time</b>	<b>Minor (Paper 1)</b>
21/05/2026	Thursday	11AM to 02 PM	1. Basics of Biochemistry: Biochemistry
			2. Bioinstrumentation: Biotechnology
			3. Elementary Botany: Botany
			4. Fundamental Organic Chemistry: Chemistry
			5. Python Programming (Paper I): Computer Application
			6. Computer Organisation: Computer Science
			7. Electronic Fundamental and Applications: Electronics
			8. Origin, History, Branches and Types of Horticulture: Horticulture

21/05/2026	Thursday	11AM to 02 PM	<b>Minor (Paper 1)</b>
			9. Introduction to Microbiology: Microbiology
			10. Inorganic Chemistry: Pharmaceutical Chemistry
			11. Fundamental of Mechanics and Matter: Physics
			12. Seed Science and Development: Seed Technology
			13. Soil Resources and Conservation: Soil Conservation and Water Management
			14. Fundamentals of Biochemistry: Biochemistry
			15. Elements of Geology: Geology
			16. Military History of India (Medieval to Pre-Independence): Military Science
		17. Introduction to Statistics (Paper I): Statistics	
03 PM to 06 PM	18. Cell biology and Biochemistry (Life Science)		
	19. Basic Calculus and Vector Calculus: Mathematics		
<b>Multidisciplinary Subjects</b>			
22/05/2026	Friday	07AM to 10 AM	<b>A. Natural &amp; Physical Science</b>
			1. Basics of Laboratory Maintenance: Biochemistry
			2. Mushroom Production and Marketing: Botany
			3. Chemistry in Everyday Life: Chemistry
			4. Bionanotechnology: Biotechnology
			5. Health and Wellness: Clinical Nutrition and Dietetics
			6. Aspects of Cleaning Agents and Personal Hygiene Products: Industrial Chemistry
			7. Environmental Geology: Geology
			8. Soil and Water Conservation: Indian Tradition and Modern Innovations: Soil and Water Conservation
			9. Anthrozoology (Human-Animal Science): Zoology
			10. Applied Home Science: Home Science
			11. Dynamics of Food Technology in India: Food Technology
			12. Essential Dimensions of Indian Security: Military Science
			13. Mechanical Workshop Skill: Physics
			14. Concept of Environmental Science: Environmental Science
			15. Basic Concepts of Pharmaceutical Chemistry: Pharmaceutical Chemistry
			16. General Sericulture: Sericulture
			17. Agronomy and Seed Science: Seed Technology
18. Basic Informatics: Bioinformatics			
<b>Multidisciplinary Subjects B. Mathematics, Statistics &amp; Computer Application</b>			
22/05/2026	Friday	11AM to 02 PM	<b>a. Mathematics (गणित)</b>
			19. Mathematical Logic
			<b>b. Statistics (सांख्यिकी)</b>
20. Fundamental Principles of Statistics-I			

22/05/2026	Friday	11AM to 02 PM	<b>Multidisciplinary Subjects</b>
			<b>B. Mathematics, Statistics &amp; Computer Application</b>
			<b>c. Computer Application (कंप्यूटर एप्लीकेशन)</b>
			21. E-Commerce and Digital Marketing
			22. Business analysis and data science
			23. Financial Technology
			<b>d. Computer Science (Cyber Security) कंप्यूटर विज्ञान (साइबर सिक्योरिटी)</b>
			24. Cybersecurity and Digital Hygiene
			<b>e. Computer Science (Artificial Intelligence) कंप्यूटर विज्ञान (आर्टिफिशियलइंटेलिजेंस)</b>
			25. Artificial Intelligence (AI) for Everyone
			<b>f. Information Technology (सूचना प्रौद्योगिकी)</b>
			26. Information Technology
			<b>C. पुस्तकालय सूचना एवं मीडिया विज्ञान</b>
			27. Information and communication
		<b>D. वाणिज्य और प्रबंधन</b>	
		28. Tourism management-Basics of Tourism Management	
		29. Tour and Travel Mangement-Sales in Tour and Travels	
		30. Rural Banking-Rural Banking and Entrepreneurship	
		31. Advertising ,Sales Promotion and Mangement-Advertising	
		<b>F. गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम</b>	
		32. NCC	
		33. NSS-Concept of National Servics Scheme	
		34. Physical Education-Introduction and Concept of Physical Education	
		<b>E. मानविकी और सामाजिक विज्ञान</b>	
		35. Psychology in Everyday Life (Theory):Psychology	
		36. Cultural Tourism and Heritage Management in India:History	
37. Basic Introduction to Indian Economy:Economics			
38. World Geography:Geography			
39. संगीत और ध्यान (हिन्दुस्तानी संगीत गायन):Music			
40.Indian Political System:Political Science			
41. Creative Writing in English:English / Creative Writing			
42. Society in India:Sociology			
43. Basics of Professional Social Work:Social Work			
44. Basic Knowledge of Dance (Bharatanatyam):Dance			
		3 PM to 6 PM	

Date	Day	Time	E. मानविकी और सामाजिक विज्ञान		
22/05/2026	Friday	3 PM to 6 PM	45. भारतीय संस्कृति एवं लोकनृत्य (कथक नृत्य): Dance / Culture		
			46. Civics and Citizenship: Public Administration		
			47. Journalism: Journalism		
			48. Drug Addiction: Applied Psychology		
			49. Urdu Zaban aur Mukhtalif Asnaf: Urdu		
			50. Artistic Practice with Calligraphy: Drawing and Painting		
			51. वैदिक साहित्य और संस्कृति: Sanskrit		
			52. Organizational Behavior: Business Economics / Management		
			<b>G. Life Science</b>		
			53. Biofuels		
Date	Day	Time	Minor (Paper 2)		
23/05/2026	Saturday	11AM to 02 PM	1. Analytical Techniques: Biochemistry		
			2. Bioethics and Biosafety: Biotechnology		
			3. Diversity of Plants: Botany		
			4. Applied Chemistry: Chemistry		
			5. Introduction to Programming Methodologies: Computer Science		
			6. Basic Electronics and Measurement: Electronics		
			7. Minerals and Rocks: Geology		
			8. History, Evolution and Status of Horticulture: Horticulture		
			9. Microbial Techniques: Microbiology		
			10. War of Post-Independence India: Military Science		
			11. Organic Chemistry: Pharmaceutical Chemistry		
			12. Thermodynamics: Physics		
			13. Seed Origin and Evolution: Seed Technology		
			14. Water Resources and Conservation: Soil Conservation and Water Management		
			15. Quantitative Statistics (Paper II): Statistics		
			16. Ecology and Environmental Conservation: Yogic Science		
			17. Plant and Animal Physiology (Life Science)		
		18. Ordinary Differential Equations: Mathematics			
		3 PM to 6 PM	19. Operating System: Computer Application		
			20. Introduction to Human Geography: Environment and Culture: Geography		
Vocational Subjects					
25/05/2026	Monday	07AM to 09AM	1. व्यक्तित्व विकास (Personality Development)		
		11AM to 01 PM	2. वित्त सेवाएं और बीमा (Finance Services and Insurance)		
			3. डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing)		
			4. वेब डिजाइनिंग (Web Designing)		
			5. जैविक खेती (Organic Farming)		
			6. डेयरी प्रबंधन (Dairy Management)		
			7. मृदा विज्ञान और उर्वरक (Soil Science and Fertilizers)		

25/05/2026	Monday	03 PM to 05 PM	<b>Vocational Subjects</b>			
			8. बेकिंग और मिष्ठान्न (Baking and Confectionery)			
			9. सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)			
			10. इवेंट मैनेजमेंट (Event Management)			
			11. फैशन डिजाइन (Fashion Design)			
			12. आतिथ्य प्रबंधन (Hospitality Management)			
			13. कुक्कुट प्रबंधन (Poultry Management)			
			14. सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण (Beauty and Wellness)			
			15. औषधीय पौधे (Medicinal Plants)			
			16. पोषण एवं नैदानिक आहार (Nutrition and Dietetics)			
			17. निर्यात-आयात प्रबंधन (Export Import Management)			
			18. जीएसटी के साथ ई-एकाउंटिंग और कराधान (E-Accounting and Taxation with GST)			
			19. खुदरा प्रबंधन (Retail Management)			
			20. बिक्री कौशल (Salesmanship)			
			21. अकाउंटिंग और टैली कोर्स (Accounting and Tally)			
			22. डेस्कटॉप प्रकाशन - डीटीपी (Desktop Publishing - DTP)			
			23. इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी (Electronics Technology)			
			24. हस्तशिल्प (Handicrafts)			
			25. खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण (Food Preservation and Processing)			
			26. बागवानी (Horticulture)			
			27. सुरक्षा सेवाएं (Security Services)			
			28. कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार (Office Procedure and Practices)			
			29. वर्मी कम्पोस्टिंग (Vermi Composting)			
			30. चिकित्सा निदान (Medical Diagnostics)			
			31. पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं (Tourism, Transport and Travel Services)			
			<b>Ability Enhancement Course (AEC)</b>			
			28/05/2026	Thursday	01 PM to 03 PM	1. हिन्दी भाषा और संस्कृति Hindi Language and Culture
			<b>Ability Enhancement Course (AEC)</b>			
			29/05/2026	Friday	01 PM to 03 PM	2. English Language and Indian Culture
			<b>Date</b>	<b>Day</b>	<b>Time</b>	<b>Value Added Course (VAC)</b>
			30/05/2026	Saturday	01 PM to 03 PM	3. Bharat Bodh (Understanding India)

**टिप्पणी :-**

1. प्रश्नपत्रों के क्रम के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों को कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती है ।
2. परीक्षार्थियों को अनुदेश दिया जाता है कि वे मौखिक (Viva-Voce) और प्रायोगिक (Practical) परीक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय से कोई पत्र-व्यवहार न करें । महाविद्यालय से ही संपर्क करें ।
3. परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई अवकाश अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत् कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होंगी ।
4. दृष्टि बाधयता, हाथ के ऊपरी हिस्से में निःशक्त तथा सेरेब्रलपल्सी से निःशक्त परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।

विश्वविद्यालय भवन,  
इन्दौर 452001

आदेशानुसार  
परीक्षा नियंत्रक

Encl. No. : Exam./B.Sc./2026/  
Copy Forwarded to: -

1105

Date: 17 APR 2026

- 1- The Dean/ Principal, All concern college,
- 2- Director College Development Council, D.A.V.V.
- 3- Asstt. Registrar (Conf.), D.A.V.V., Indore for information & necessary action.
- 4- Dean. Student Welfare, D.A.V.V.
- 5- Incharge, Central Valuation Centre, D.A.V.V.
- 6- Control room D.A.V.V.
- 7- Incharge, IT Centre, Net D.A.V.V.
- 8- Incharge, Press, D.A.V.V., Indore

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)